

COVID-19

फिजिकल डिस्टेंसिंग

इस साइट पर रोगियों और सहकर्मियों की सुरक्षा और समर्थन के लिए, आपके लिए **आवश्यक** है कि:



दूसरों से कम से कम 2 भुजाओं की लंबाई (2 मीटर / 6 फीट) की दूरी रखें।



2 भुजाओं की लंबाई
(2 मीटर / 6 फीट)



भोजन करने में जितना समय लगता है उतने समय तक खाने के क्षेत्रों में होना सीमित करें।



अपने चेहरे को छूने से बचें।



अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएँ **या** भोजन करने से **पहले** और भोजन करने के **बाद** अपने हाथों को अल्कोहल-आधारित हैंड रब से साफ करें।

सुरक्षित, दयालु और धैर्यवान होने के लिए आपका धन्यवाद।
इसमें हम सब साथ-साथ हैं। हम इसे मिलजुल कर जीत लेंगे।